



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119]

No. 119]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 20, 2007/फाल्गुन 29, 1928

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 2007/PHALGUNA 29, 1928

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2007

सा.का.नि. 210(अ).—भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 74 के साथ पठित धारा 1 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः :—

1. (1) इन नियमों को भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 2007 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 में नियम 43क के उप-नियम (1) खण्ड (छ) के लिए निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः :—

“(छ) लॉजिस्टिक पोस्ट वस्तुओं के लिए प्रभार का भुगतान पूर्णतया पूर्वदत्त होगा, सिवाय ऐसे मामलों के जिनमें महानिदेशक डाक द्वारा पदनामित सक्षम प्राधिकारी ने सेवा के पश्चात् यह भुगतान करने के लिए अनुमति दे दी है।”

[फा. सं. 13-9/06-बीडी (पी एण्ड एल)]

रामेश्वरी हांडा, सचिव (डाक सेवा बोर्ड)

टिप्पणी : दिनांक 1-1-1975 तक यथासंशोधित मुख्य नियम जो डाक-तार नियमावली खंड-1, विधायी अधिनियम, भाग-1, पांचवें संस्करण में प्रकाशित हो चुके हैं, बाद में इनके द्वारा संशोधित हुए हैं :—

1. सा.का.नि. 2888 दिनांक 19-12-1975
2. सा.का.नि. 596(अ) दिनांक 30-12-1975
3. सा.का.नि. 741(अ) दिनांक 31-12-1975
4. सा.का.नि. 472(अ) दिनांक 24-1-1976
5. सा.का.नि. 93(अ) दिनांक 25-2-1976
6. सा.का.नि. 811(अ) दिनांक 31-5-1976
7. सा.का.नि. 943(अ) दिनांक 21-6-1976
8. सा.का.नि. 135(अ) दिनांक 7-1-1978
9. सा.का.नि. 304(अ) दिनांक 29-5-1978
10. सा.का.नि. 316(अ) दिनांक 18-5-1979
11. सा.का.नि. 4118(अ) दिनांक 29-12-1979
12. सा.का.नि. 1256(अ) दिनांक 13-5-1980
13. सा.का.नि. 490(अ) दिनांक 26-6-1980
14. सा.का.नि. 491(अ) दिनांक 26-6-1980
15. सा.का.नि. 380(अ) दिनांक 5-6-1980
16. सा.का.नि. 409(अ) दिनांक 26-9-1981
17. सा.का.नि. 59(अ) दिनांक 11-2-1982

18. सा.का.नि. 417(अ) दिनांक 22-5-1982
19. सा.का.नि. 411(अ) दिनांक 13-5-1982
20. सा.का.नि. 520(अ) दिनांक 10-8-1982
21. सा.का.नि. 33(अ) दिनांक 20-1-1983
22. सा.का.नि. 49(अ) दिनांक 2-2-1983
23. सा.का.नि. 92(अ) दिनांक 21-2-1983
24. सा.का.नि. 444(अ) दिनांक 25-5-1983
25. सा.का.नि. 37(अ) दिनांक 17-1-1984
26. सा.का.नि. 1652(अ) दिनांक 19-5-1984
27. सा.का.नि. 637(अ) दिनांक 16-4-1986
28. सा.का.नि. 329(अ) दिनांक 3-5-1986
29. सा.का.नि. 461 दिनांक 14-6-1986
30. सा.का.नि. 2420 दिनांक 28-6-1986
31. सा.का.नि. 436(अ) दिनांक 24-7-1986
32. सा.का.नि. 2460(अ) दिनांक 24-7-1986
33. सा.का.नि. 3677(अ) दिनांक 25-10-1986
34. सा.का.नि. 1333(अ) दिनांक 29-12-1986
35. सा.का.नि. 85(अ) दिनांक 6-2-1987
36. सा.का.नि. 548(अ) दिनांक 28-2-1987
37. सा.का.नि. 379(अ) दिनांक 10-4-1987
38. सा.का.नि. 256(अ) दिनांक 11-4-1987
39. सा.का.नि. 480(अ) दिनांक 29-4-1987
40. सा.का.नि. 531(अ) दिनांक 27-5-1987
41. सा.का.नि. 438(अ) दिनांक 6-6-1987
42. सा.का.नि. 632(अ) दिनांक 27-8-1987
43. सा.का.नि. 688(अ) दिनांक 30-8-1987
44. सा.का.नि. 807(अ) दिनांक 2-9-1987
45. सा.का.नि. 829(अ) दिनांक 15-9-1987
46. सा.का.नि. 823(अ) दिनांक 15-9-1987
47. सा.का.नि. 976(अ) दिनांक 9-11-1987
48. सा.का.नि. 1(अ) दिनांक 1-1-1988
49. सा.का.नि. 2(अ) दिनांक 1-1-1988
50. सा.का.नि. 55(अ) दिनांक 15-1-1988
51. सा.का.नि. 212(अ) दिनांक 26-2-1988
52. सा.का.नि. 344(अ) दिनांक 4-3-1988
53. सा.का.नि. 388(अ) दिनांक 14-4-1988
54. सा.का.नि. 462(अ) दिनांक 2-5-1988
55. सा.का.नि. 639(अ) दिनांक 23-5-1988
56. सा.का.नि. 683(अ) दिनांक 7-6-1988
57. सा.का.नि. 624(अ) दिनांक 29-6-1988
58. सा.का.नि. 623(अ) दिनांक 1-7-1988
59. सा.का.नि. 684(अ) दिनांक 8-7-1988
60. सा.का.नि. 866(अ) दिनांक 26-9-1988
61. सा.का.नि. 1022(अ) दिनांक 31-12-1988
62. सा.का.नि. 14(अ) दिनांक 4-1-1989
63. सा.का.नि. 68(अ) दिनांक 10-1-1989
64. सा.का.नि. 180(अ) दिनांक 24-2-1989
65. सा.का.नि. 223(अ) दिनांक 28-2-1989
66. सा.का.नि. 180(अ) दिनांक 1-3-1989
67. सा.का.नि. 314(अ) दिनांक 1-5-1989
68. सा.का.नि. 435(अ) दिनांक 9-6-1989
69. सा.का.नि. 478(अ) दिनांक 24-6-1989
70. सा.का.नि. 639(अ) दिनांक 26-8-1989
71. सा.का.नि. 804(अ) दिनांक 12-10-1989
72. सा.का.नि. 82(अ) दिनांक 16-10-1989
73. सा.का.नि. 898 दिनांक 2-12-1989
74. सा.का.नि. 965 दिनांक 12-12-1989
75. सा.का.नि. 1077(अ) दिनांक 29-12-1989
76. सा.का.नि. 1078(अ) दिनांक 29-12-1989
77. सा.का.नि. 967(अ) दिनांक 30-12-1989
78. सा.का.नि. 198(अ) दिनांक 5-2-1990
79. सा.का.नि. 100(अ) दिनांक 1-3-1990
80. सा.का.नि. 197(अ) दिनांक 5-3-1990
81. सा.का.नि. 312(अ) दिनांक 5-4-1990
82. सा.का.नि. 358(अ) दिनांक 30-4-1990
83. सा.का.नि. 379(अ) दिनांक 11-5-1990
84. सा.का.नि. 544(अ) दिनांक 5-6-1990
85. सा.का.नि. 545(अ) दिनांक 5-6-1990
86. सा.का.नि. 783(अ) दिनांक 13-6-1990
87. सा.का.नि. 68(अ) दिनांक 10-8-1990
88. सा.का.नि. 628(अ) दिनांक 18-8-1990
89. सा.का.नि. 671(अ) दिनांक 31-8-1990
90. सा.का.नि. 694(अ) दिनांक 11-9-1990
91. सा.का.नि. 783(अ) दिनांक 12-10-1990
92. सा.का.नि. 622(अ) दिनांक 20-9-1991
93. सा.का.नि. 178 दिनांक 6-4-1992
94. सा.का.नि. 79(अ) दिनांक 4-1-1993

95. सा.का.नि. 259(अ) दिनांक 5-3-1993
96. सा.का.नि. 420(अ) दिनांक 17-5-1993
97. सा.का.नि. 615(अ) दिनांक 20-9-1993
98. सा.का.नि. 616(अ) दिनांक 16-9-1993
99. सा.का.नि. 778(अ) दिनांक 27-12-1993
100. सा.का.नि. 43(अ) दिनांक 21-1-1994
101. सा.का.नि. 193(अ) दिनांक 18-2-1994
102. सा.का.नि. 152 दिनांक 26-3-1994
103. सा.का.नि. 434(अ) दिनांक 2-6-1994
104. सा.का.नि. 502(अ) दिनांक 8-6-1994
105. सा.का.नि. 793(अ) दिनांक 7-11-1994
106. सा.का.नि. 836(अ) दिनांक 5-12-1994
107. सा.का.नि. 860(अ) दिनांक 21-12-1994
108. सा.का.नि. 873(अ) दिनांक 21-12-1994
109. सा.का.नि. 931(अ) दिनांक 26-12-1994
110. सा.का.नि. 121(अ) दिनांक 24-2-1995
111. सा.का.नि. 342(अ) दिनांक 18-4-1995
112. सा.का.नि. 484(अ) दिनांक 14-6-1995
113. सा.का.नि. 736(अ) दिनांक 13-11-1995
114. सा.का.नि. 737(अ) दिनांक 13-11-1995
115. सा.का.नि. 926(अ) दिनांक 20-11-1995
116. सा.का.नि. 764(अ) दिनांक 29-11-1995
117. सा.का.नि. 783(अ) दिनांक 7-12-1995
118. सा.का.नि. 201(अ) दिनांक 7-5-1996
119. सा.का.नि. 372(अ) दिनांक 21-8-1996
120. सा.का.नि. 427(अ) दिनांक 18-9-1996
121. सा.का.नि. 517(अ) दिनांक 6-11-1996
122. सा.का.नि. 573(अ) दिनांक 18-12-1996
123. सा.का.नि. 267(अ) दिनांक 19-5-1997
124. सा.का.नि. 295(अ) दिनांक 30-5-1997
125. सा.का.नि. 318(अ) दिनांक 10-6-1997
126. सा.का.नि. 351(अ) दिनांक 26-6-1997
127. सा.का.नि. 723(अ) दिनांक 26-12-1997
128. सा.का.नि. 41(अ) दिनांक 21-1-1998
129. सा.का.नि. 42(अ) दिनांक 22-1-1998
130. सा.का.नि. 406(अ) दिनांक 26-7-1998
131. सा.का.नि. 503(अ) दिनांक 19-8-1998
132. सा.का.नि. 40(अ) दिनांक 22-1-1999

133. सा.का.नि. 46(अ) दिनांक 22-1-1999
134. सा.का.नि. 77(अ) दिनांक 9-2-1999
135. सा.का.नि. 345(अ) दिनांक 13-5-1999
136. सा.का.नि. 357(अ) दिनांक 23-4-2000
137. सा.का.नि. 672(अ) दिनांक 25-8-2000
138. सा.का.नि. 71(अ) दिनांक 7-2-2001
139. सा.का.नि. 387(अ) दिनांक 24-5-2001
140. सा.का.नि. 7(अ) दिनांक 3-1-2002
141. सा.का.नि. 22(अ) दिनांक 11-1-2002
142. सा.का.नि. 366(अ) दिनांक 14-5-2002
143. सा.का.नि. 381(अ) दिनांक 24-5-2002
144. सा.का.नि. 612(अ) दिनांक 2-9-2002
145. सा.का.नि. 637(अ) दिनांक 11-9-2002
146. सा.का.नि. 705(अ) दिनांक 4-9-2003
147. सा.का.नि. 514(अ) दिनांक 10-8-2003
148. सा.का.नि. 292(अ) दिनांक 13-5-2005
149. सा.का.नि. 30(अ) दिनांक 20-1-2006
150. सा.का.नि. 466(अ) दिनांक 8-8-2006

MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2007

G.S.R. 210(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of Sub-section (2) of Section 1, read with Section 74 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (Amendment) Rules, 2007.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Post Office Rules, 1933, for clause (g) of sub-rule (1) of rule 43A, the following clause shall be substituted, namely :—

“(g) The charges for Logistics Post Articles shall be fully prepaid except where the competent authority designated by Director General Posts permits such payment after the service has been rendered.”

[F. No. 13-9/06-BD (P & L)]

RAMESHWARI HANDA, Secy. (Postal Services Board)

Note.—The principal rules as amended up to 1-1-1975 have been published in the Post and Telegraphs Manual Volume-I, Legislative Enactments, Part-I, Fifth Edition and subsequently amended by :

1. G.S.R. 2888 dated 19-12-75
2. G.S.R. 596(E) dated 30-12-75
3. G.S.R. 741(E), dated 31-12-75
4. G.S.R. 472(E) dated 24-1-76
5. G.S.R. 93(E), dated 25-2-76
6. G.S.R. 811(E) dated 31-5-76
7. G.S.R. 943(E) dated 21-6-76
8. G.S.R. 135(E) dated 7-1-78
9. G.S.R. 304(E) dated 29-5-78
10. G.S.R. 316(E) dated 18-5-79
11. G.S.R. 4118(E) dated 29-12-79
12. G.S.R. 1256(E) dated 13-5-80
13. G.S.R. 490(E) dated 26-6-80
14. G.S.R. 491(E) dated 26-6-80
15. G.S.R. 380(E) dated 5-6-81
16. G.S.R. 409(E) dated 26-9-81
17. G.S.R. 59(E) dated 11-2-82
18. G.S.R. 417(E) dated 22-5-82
19. G.S.R. 411(E) dated 13-5-82
20. G.S.R. 520(E) dated 10-8-82
21. G.S.R. 33(E) dated 20-1-83
22. G.S.R. 49(E) dated 2-2-83
23. G.S.R. 92(E) dated 21-2-83
24. G.S.R. 444(E) dated 23-5-83
25. G.S.R. 37(E) dated 17-1-84
26. G.S.R. 1652(E) dated 19-5-84
27. G.S.R. 673(E) dated 16-4-86
28. G.S.R. 329 dated 3-5-86
29. G.S.R. 461 dated 14-6-86
30. G.S.R. 2420 dated 28-6-86
31. G.S.R. 436(E) dated 24-7-86
32. G.S.R. 2460(E) dated 24-7-86
33. G.S.R. 3677(E) dated 25-10-86
34. G.S.R. 1333(E) dated 29-12-86
35. G.S.R. 85(E) dated 6-2-87
36. G.S.R. 548(E) dated 28-2-87
37. G.S.R. 379(E) dated 10-4-87
38. G.S.R. 265(E) dated 11-4-87
39. G.S.R. 480(E) dated 29-4-87
40. G.S.R. 531(E) dated 27-5-87
41. G.S.R. 438(E) dated 6-6-87
42. G.S.R. 632 (E) dated 27-8-87
43. G.S.R. 688(E) dated 30-8-87
44. G.S.R. 807(E) dated 2-9-87
45. G.S.R. 829(E) dated 15-9-87
46. G.S.R. 823(E) dated 15-9-87
47. G.S.R. 976(E) dated 9-11-87
48. G.S.R. 1(E) dated 1-1-88
49. G.S.R. 2(E) dated 1-1-88
50. G.S.R. 55(E) dated 15-1-88
51. G.S.R. 212(E) dated 26-2-88
52. G.S.R. 344(E) dated 4-3-88
53. G.S.R. 388(E) dated 14-4-88
54. G.S.R. 462(E) dated 2-5-88
55. G.S.R. 639(E) dated 23-5-88
56. G.S.R. 683(E) dated 7-6-88
57. G.S.R. 624(E) dated 29-6-88
58. G.S.R. 633(E) dated 1-7-88
59. G.S.R. 684(E) dated 8-7-88
60. G.S.R. 866(E) dated 26-9-88
61. G.S.R. 1022(E) dated 31-12-88
62. G.S.R. 14(E) dated 4-1-89
63. G.S.R. 68(E) dated 10-1-89
64. G.S.R. 180(E) dated 24-2-89
65. G.S.R. 223(E) dated 28-2-89
66. G.S.R. 180(E) dated 1-3-89
67. G.S.R. 314(E) dated 1-5-89
68. G.S.R. 435(E) dated 9-6-89
69. G.S.R. 478(E) dated 24-6-89
70. G.S.R. 639(E) dated 26-8-89
71. G.S.R. 804(E) dated 12-10-89
72. G.S.R. 821(E) dated 16-10-89
73. G.S.R. 898 dated 2-12-89
74. G.S.R. 965 dated 12-12-89
75. G.S.R. 1077(E) dated 29-12-89
76. G.S.R. 1078(E) dated 29-12-89
77. G.S.R. 967(E) dated 30-12-89
78. G.S.R. 198(E) dated 5-2-90
79. G.S.R. 100(E) dated 1-3-90
80. G.S.R. 197(E) dated 5-3-90

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 81. G.S.R. 312(E) dated 5-4-90 | 116. G.S.R. 764(E) dated 29-11-95 |
| 82. G.S.R. 358(E) dated 30-4-90 | 117. G.S.R. 783(E) dated 7-12-95 |
| 83. G.S.R. 379(E) dated 11-5-90 | 118. G.S.R. 201(E) dated 7-5-96 |
| 84. G.S.R. 544(E) dated 5-6-90 | 119. G.S.R. 372(E) dated 21-8-96 |
| 85. G.S.R. 545(E) dated 5-6-90 | 120. G.S.R. 427(E) dated 18-9-96 |
| 86. G.S.R. 783(E) dated 13-6-90 | 121. G.S.R. 517(E) dated 6-11-96 |
| 87. G.S.R. 68(E) dated 10-8-90 | 122. G.S.R. 573(E) dated 18-12-96 |
| 88. G.S.R. 628(E) dated 18-8-90 | 123. G.S.R. 267(E) dated 19-5-97 |
| 89. G.S.R. 671(E) dated 31-8-90 | 124. G.S.R. 295(E) dated 30-5-97 |
| 90. G.S.R. 694(E) dated 11-9-90 | 125. G.S.R. 318(E) dated 10-6-97 |
| 91. G.S.R. 783(E) dated 12-10-90 | 126. G.S.R. 351(E) dated 26-6-97 |
| 92. G.S.R. 622(E) dated 20-9-91 | 127. G.S.R. 723(E) dated 26-12-97 |
| 93. G.S.R. 178, dated 6-4-92 | 128. G.S.R. 41(E) dated 21-1-98 |
| 94. G.S.R. 79(E) dated 4-1-93 | 129. G.S.R. 42(E) dated 22-1-98 |
| 95. G.S.R. 259(E) dated 5-3-93 | 130. G.S.R. 406(E) dated 26-7-98 |
| 96. G.S.R. 420(E) dated 17-5-93 | 131. G.S.R. 503(E) dated 19-8-98 |
| 97. G.S.R. 615(E) dated 20-9-93 | 132. G.S.R. 40(E) dated 22-1-99 |
| 98. G.S.R. 616(E) dated 16-9-93 | 133. G.S.R. 46(E) dated 22-1-99 |
| 99. G.S.R. 778(E) dated 27-12-93 | 134. G.S.R. 77(E) dated 9-2-99 |
| 100. G.S.R. 43(E) dated 21-1-94 | 135. G.S.R. 345(E) dated 13-5-99 |
| 101. G.S.R. 193 (E) dated 18-2-94 | 136. G.S.R. 357(E) dated 23-4-2000 |
| 102. G.S.R. 152 dated 26-3-94 | 137. G.S.R. 672(E) dated 25-8-2000 |
| 103. G.S.R. 434(E) dated 2-6-94 | 138. G.S.R. 71(E) dated 7-2-2001 |
| 104. G.S.R. 502(E) dated 8-6-94 | 139. G.S.R. 387(E) dated 24-5-2001 |
| 105. G.S.R. 793(E) dated 7-11-94 | 140. G.S.R. 7(E) dated 3-1-2002 |
| 106. G.S.R. 836(E) dated 5-12-94 | 141. G.S.R. 23(E) dated 11-1-2002 |
| 107. G.S.R. 860(E) dated 21-12-94 | 142. G.S.R. 366(E) dated 14-5-2002 |
| 108. G.S.R. 873(E) dated 21-12-94 | 143. G.S.R. 381(E) dated 24-5-2002 |
| 109. G.S.R. 931(E) dated 26-12-94 | 144. G.S.R. 612(E) dated 2-9-2002 |
| 110. G.S.R. 121(E) dated 24-2-95 | 145. G.S.R. 637(E) dated 11-9-2002 |
| 111. G.S.R. 342(E) dated 18-4-95 | 146. G.S.R. 705(E) dated 4-9-2003 |
| 112. G.S.R. 484(E) dated 14-6-95 | 147. G.S.R. 514(E) dated 10-8-2003 |
| 113. G.S.R. 736(E) dated 13-11-95 | 148. G.S.R. 292(E) dated 13-5-2005 |
| 114. G.S.R. 737(E) dated 13-11-95 | 149. G.S.R. 30(E) dated 20-1-2006 |
| 115. G.S.R. 926(E) dated 20-11-95 | 150. G.S.R. 466(E) dated 8-8-2006. |

951 GI/07-2